

<b>ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL, _____</b>				
<b>WORKSHEET-CYCLE _____</b>				
<b>SUBJECT-HINDI</b>			<b>CLASS-11</b>	
<b>LESSON- नमक का दारोगा</b>				<b>MODULE-1&amp;2</b>
<b>NAME OF THE STUDENT</b>				
<b>ROLL NO.</b>			<b>DATE:</b>	
<b>MAX MARKS:</b>		<b>MARKS OBTAINED</b>		

### 1. गद्यांश पढ़कर दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 2x4=8

पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडितजी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडितजी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा किन्तु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडितजी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया यह अभी उदंड लड़का है। माया-मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन-भाव से बोले - बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएँगे। इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आयेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं।

- (क) पंडित अलोपीदीन किस कारण स्तंभित हो गए?  
 (ख) बदलू सिंह कौन था? उसकी मनःस्थिति पर प्रकाश डालिए।  
 (ग) पंडितजी ने वंशीधर का कठोर व्यवहार देखकर क्या सोचा ?  
 (घ) पंडित अलोपीदीन की इज्जत पर बढ़ा लगने की आशंका क्यों थी ?

### 1. गद्यांश पढ़कर दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 2x4=8

दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सबरे देखिए तो बालक-वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देते थी। जिसे देखिए, वही पंडितजी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बहनेवाला ग्वाला, कल्पित रोज़नामचे भरनेवाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करनेवाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज़ बनानेवाले सेठ और साहूकार, यह सब-के-सब देवताओं की भाँति गरदन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभभरे, लज्जा से गरदन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आँखें इतनी व्यग्र न होती होगी। भीड़ के मारे छट और दीवार में कोई भेद न रहा।

- (क) 'दुनिया की जीभ जागती थी'-आशय स्पष्ट कीजिए।  
 (ख) कौन-कौन लोग गरदन चला रहे थे और क्यों ?  
 (ग) सारे शहर में किसलिए हलचल मच गई ?  
 (घ) शहर की भीड़ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए?